

Hindi Murli Quiz 10-10-2015



Q.1) सदा प्रभू की अमानत समझकर चलने से क्या होगा

- A. ☐ बाप के प्यारे रहेंगे
- B. ☐ न्यारे रहेंगे
- C. ☒ कर्म में रुहानियत आयेगी
- D. ☐ कर्म का बोझ नहीं चढ़ेगा

Q.2) कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए __और __ का संगठन चाहिए।

- A. ☒ दृढ़ता, स्नेह
- B. ☐ निश्चय, प्रेम
- C. ☐ दृढ़ता, प्रेम
- D. ☐ निश्चय, स्नेह

Q.3) हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रियेटर और रचना के आदि मध्य अन्त ड्युरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए.. यह ____ अक्षर भी बहुत जरूरी है

- A. ☐ ड्युरेशन
- B. ☐ क्रियेटर
- C. ☐ रचना
- D. ☒ रिपीटेशन

Q.4) इन्हें मिलाएं

	Choice	Match
A	सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नम्बरवन भूल।	गीता का भगवान कौन
B	योग में रहते	धारणा उनको होगी
C	ज्ञान	सोर्स ऑफ इनकम।
D	याद	शक्ति मिलती है
E	चार्ट लिखो	लज्जा आयेगी

Q.5) घड़ी-घड़ी याद भुला देती है इसलिए बाबा कहते हैं

- A. ☐ क्रिमिनल ऑय न रखो
- B. ☐ पवित्र बनो
- C. ☐ अपना पोथामेल चेक करो
- D. ☒ चार्ट लिखो।

Q.6) डायरी रखने से क्या होगा

- A. ☐ पता चलेगा की हम कितने याद में हैं
- B. ☐ लज्जा आएगी
- C. ☒ डर रहेगा, हमारा घाटा न निकल आये।

Q.7) आज बाबा योग और याद के बारे में क्या कहें है

- A. ☒ तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मन्द्रियाँ शीतल होंगी।
- B. ☒ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना
- C. ☒ धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं।
- D. ☒ याद को ही बल कहा जाता है।
- E. ☒ याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं।
- F. ☒ तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है।

Q.8) दृढ़ता द्वारा नाउम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो क्योंकि ____ से बाप की मदद मिल जाती है।

- A. ☐ दृढ़ता
- B. ☒ हिम्मत

Q.9) धारणा के लिए सार

- A. ☒ ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है।
- B. ☒ याद से ही कर्मन्द्रियाँ शीतल, सतोगुणी बनेगी इसलिए यही मेहनत करनी है।
- C. ☒ धन्धे आदि से टाइम निकाल एकान्त में जाकर याद में बैठना है।
- D. ☒ कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है।
- E. ☒ अपना चार्ट जरूर रखना है।

Q.10) भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी?

- A. ☐ हम ही 84 का चक्र लेते हैं
- B. ☐ सृष्टि चक्र कैसे फिरता है
- C. ☒ बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं